



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 ज्येष्ठ 1940 (श0)

(सं0 पटना 547) पटना, शुक्रवार, 8 जून 2018

गृह विभाग

प्रपत्र सं0-1

(बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 की धारा 5 एवं बिहार विशेष न्यायालय नियमावली, 2010 के नियम 7 के अधीन)

घोषणा

27 दिसम्बर 2017

सं० बी0/आ0अ0ई0-07/2017-11172—चूंकि यह अभिकथित किया गया है कि श्रीमती जयश्री ठाकुर, पति-श्री राजेश कुमार चौधरी, फ्लैट नं०-404, सुन्दरम अपार्टमेंट, तिलकामाँझी, थाना-तिलकामाँझी, जिला-भागलपुर ने बिहार राज्य में सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत भागलपुर में तत्कालीन अपर समाहर्ता का पद धारण करते हुए अन्य के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 की उप धारा (1) के खंड (ई) के अधीन अपराध किया और मामले की जांच आर्थिक अपराध थाना कांड सं०-29/2013, दिनांक 11.07.2013 धारा 13 (2) सह पठित धारा 13(1)(ई) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में की गई है;

और चूंकि अभिलेख में उपलब्ध सुसंगत सामग्री की छानबीन करने पर राज्य सरकार की राय है कि श्रीमती जयश्री ठाकुर, पति-श्री राजेश कुमार चौधरी, फ्लैट नं०-404, सुन्दरम अपार्टमेंट, तिलकामाँझी, थाना-तिलकामाँझी, जिला-भागलपुर, बिहार, तत्कालीन अपर समाहर्ता, भागलपुर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार (सम्प्रति सेवा बर्खास्त) एवं अन्य, जिन्होंने भ्रष्ट साधनों का सहारा लेकर अपने आय के ज्ञात स्रोत से अनुपातिक संपत्ति संचित किया है, पर प्रथम दृष्टया केस बनता है;

और चूंकि सरकार को यह आवश्यक और समीचीन प्रतीत होता है कि उक्त अपराधियों पर विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 5, 2010) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाए;

इसलिए, अब विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अपराध का निपटारा विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अधीन किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

27 दिसम्बर 2017

सं० बी०/आ०अ०ई०-०७/२०१७-१११७२ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-३४८ के खण्ड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 27th December 2017**FORM No. 1**

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act, 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules, 2010)

DECLARATION

सं० बी०/आ०अ०ई०-०७/२०१७-१११७२— WHEREAS, It was alleged that **Smt. JAISHRI THAKUR, W/O-Sri Rajesh Kumar Chaudhary, Flat No. -404, Sundaram Apartment, Tilkamanjhi, P.S.-Tilkamanjhi, Dist-Bhagalpur** while holding the post of **Additional Collector, Bhagalpur, General Administration Department, Govt. of Bihar** and serving in different capacities under Government of Bihar committed an offence with others under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Economic Offences P.S. Case No. **29/2013**, dated **11.07.2013**,

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of commission of above mentioned offence by the said **Smt. JAISHRI THAKUR, W/O-Sri Rajesh Kumar Chaudhary, Flat No. -404, Sundaram Apartment, Tilkamanjhi, P.S.-Tilkamanjhi, Dist-Bhagalpur, Additional Collector, Bhagalpur, General Administration Department, Govt. of Bihar (Since dismissed from Service) and others** who have accumulated properties disproportionate to their known sources of income by resorting to corrupt means;

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offenders should be tried by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence shall be dealt with under the Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI,
Principal Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 547-571+100-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>